





**प्रेस विज्ञप्ति**  
**दिनांक - 04.11.2022**

# महोबा पुलिस

**मीडिया सेल, महोबा**



## थाना खन्ना पुलिस टीम ने अवैध शस्त्र व कारतूस के साथ अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन पर जनपद में अपराध की रोकथाम हेतु अवैध शस्त्र धारक अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे सघन चेकिंग व गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 04.11.2022 को अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर0के0 गौतम व क्षेत्राधिकारी नगर श्री रामप्रवेश राय के निकट पर्यवेक्षण में थाना खन्ना थानाध्यक्ष श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा गठित की गयी उ0नि0 सूरज प्रसाद के नेतृत्व में पुलिस टीम ने चेकिंग के दौरान अभियुक्त बलराम सिंह पुत्र स्वयंवर सिंह उम्र 20 वर्ष को घटनास्थल ग्राम खन्ना के किनारे बने बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस वे पुल के नीचे से पुलिस हिरासत में लिया गया जिसके कब्जे से 01 अदद देशी तमन्चा 315 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस बरामद होने पर नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 116/2022 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया, बाद आवश्यक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय महोबा के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

### गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

बलराम सिंह पुत्र स्वयंवर सिंह उम्र 20 वर्ष निवासी ग्राम खन्ना थाना खन्ना जिला

महोबा

### गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. उ0नि0 सूरज प्रसाद
2. का0 अमित कुमार
3. का0 अंशुल कुमार





**प्रेस विज्ञप्ति**  
**दिनांक - 04.11.2022**

# महोबा पुलिस

**मीडिया सेल, महोबा**



## **पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा पुलिस लाइन महोबा का किया गया निरीक्षण, पुलिस कर्मियों के साथ की ड्रिल, दिये गये आवश्यक दिशा निर्देश-**

आज दिनांक 04.11.2022 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह द्वारा पुलिस लाइन परेड ग्राउण्ड में साप्ताहिक शुक्रवार परेड का निरीक्षण किया गया, परेड में सम्मिलित पुलिस कर्मियों के टर्नआउट को चेक करते हुए सभी अधिकारी / कर्मचारीगणों को ड्यूटी के दौरान उच्च कोटि की वर्दी पहनने व जनता से मधुर व्यवहार स्थापित करने के लिए निर्देशित किया गया व पुलिस कर्मियों को शारीरिक रूप से फिट रहने हेतु पुलिस अधीक्षक द्वारा स्वयं भी ड्रिल की गयी।

निरीक्षण व ड्रिल के उपरान्त आवासीय परिसर स्थित आरओ प्लान्ट, परिवहन शाखा, क्वार्टर गार्ड, स्टोर रूम, भोजनालय इत्यादि का निरीक्षण कर उनकी गुणवत्ता व सम्बन्धित अभिलेखों को चेक किया गया।

पुलिस लाइन की बेहतर साफ-सफाई हेतु प्रतिसार निरीक्षक को निर्देशित किया गया तत्पश्चात पुलिस लाइन अवस्थित सभी शाखाओं का भ्रमण कर समस्त अभिलेखों को चेक किया गया व आवश्यक निर्देश दिये गये।

इस दौरान क्षेत्राधिकारी प्रशिक्षु हर्षिता गंगवार, क्षेत्राधिकारी लाइन/चरखारी श्री अजय कुमार अग्रवाल, प्रतिसार निरीक्षक श्री सैन्यजीत सिंह सहित अन्य अधिकारी / कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

